

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09122024-259262
SG-DL-E-09122024-259262असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/अग्रहायण 14, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 286
No. 320]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/AGRAHAYANA 14, 1946	[N. C. T. D. No. 286

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2024

फा. सं. 3(17)/वित्त (व्यय-I)/2024/DS-I/1077.-केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (घ) तथा उसके परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार, परिषद् की अनु"ंसा पर, माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठों में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति हेतु दिल्ली के अधिकारियों की योग्यता के संबंध में, एतद् द्वारा:

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (घ) के परंतुक के अनुसार "समूह क या समकक्ष में पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी करने" की आवश्यकता से योग्यता को "राज्य पीठ में तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए कुल पच्चीस वर्ष की सेवा के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एजीएमयूटी संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा (समूह 'क') के अधिकारी जिसने सरकार में समूह क या समकक्ष के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।" के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए "ि" थिल करते हैं।"

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में यथानिहित सभी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2024

F.No. 3(17)/Fin(Exp-I)/2024/DS-I/1077.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub section (1) of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and the proviso thereof, the Government of Delhi, on the recommendations of the Council, in respect of the qualification of the officers of Delhi for appointment as a Technical Member (State) in the State Benches of Goods and Services Tax Appellate Tribunal, hereby:

relaxes the qualification from the requirement of “completion of twenty-five years of service in Group A, or equivalent” as per proviso to clause (d) of sub-section (1) of section 110 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) to “*an officer of All India Service (Group ‘A’) of AGMUT Cadre in the Government of National Capital Territory of Delhi, who has completed at least fifteen years of service in the Government as Group A or equivalent, subject to overall twenty-five years of service, to be eligible for the appointment as Technical Member (State) in State Bench*” for a period of ten years from the date of publication of this notification.

All other conditions as contained in clause (d) of sub-section (1) of section 110 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) shall also apply.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi;

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy.